



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
क्षेत्रीय मुख्यालय, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई

REGIONAL HEADQUARTERS, SOUTHERN REGION, CHENNAI



चना अधिकार - समयबद्ध /RTI – TIME BOUND

सं./ Ref: भाविप्रा/द. क्षेत्र/ सूचना अधिकार /2023 AAI/SR/RTI/2023/T-293 दिनांक / Date : 05.01.2024

सेवा में / To

श्री / Shri. Vineesh K
Kozhummal

विषय / Sub : सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत माँगी गई सूचना श्री विनेश के के आवेदन के संबंध में /
Information under RTI Act, 2005- Application of Shri. Vineesh K - reg

संदर्भ /Ref : AAICH/R/E/23/00225 dated 08.12.2023

महोदय / महोदया / Sir/ Madam,

कृपया आपके ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त सूचना अधिकार के अनुरोध के संबंध में।
Reference may please be made to your online RTI Request as above.


इस संबंध में उक्त सूचना के संरक्षक द्वारा प्रदान की गई अपेक्षित सूचना कृपया इसके साथ संलग्न है। In this regard,
the information furnished by the custodian of information is attached herewith.

यदि आप उक्त उत्तर/सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 30 दिनों के अंदर
अपील किया जा सकता है। In case you are satisfied with the reply/information, you may prefer an
appeal within 30 days to the First Appellate Authority.

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के संबंध में विवरण निम्न है। The details of FAA are given below.

एस.जी. पणिक्कर / S G Panicker,
क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक / प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
Regional Executive Director/First Appellate Authority
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / Airports Authority of India,
क्षेत्रीय मुख्यालय, दक्षिणी क्षेत्र / Regional Headquarters, Southern Region,
चेन्नई हवाई अड्डा / Chennai Airport
चेन्नई / Chennai - 600 016
दूरभाष / Phone No.: 044-22561234
ई मेल / Email : redsr@aai.aero

भवदीय / Yours faithfully,

()
वेणकटेश्वर एल / VENKATESHWAR L.
महाप्रबंधक (सं.दि.नि. द.क्षेत्र)
General Manager (CNS-SR)
जन सूचना अधिकारी - सूचना अधिकार
PUBLIC INFORMATION OFFICER-RTI

संलग्न/Encl.: यथोपरि/As above



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

टिप्पणी पत्र / NOTE SHEET

No. AAI/SR/OPS/RTI/24/1/03


Date: 05.01.2024

OFFICE NOTE

SUB: Reply to RTI Query No. AAICH/R/E/23/00225 dt. 08/12/2023 received from Shri. Vineesh k.

Kind reference is made to the RTI Query received from Shri. Vineesh k vide RTI Registration No. AAICH/R/E/23/00225 dated 08/12/2023.

The reply pertaining to the above query is forwarded herewith for further necessary action please.


05/01/24
(R. LAKSHMANAN)

JOINT GENERAL MANAGER (OPS)
SOUTHERN REGION

To:

PIO/SR

Enclosed: a/a

CO TO - RTI
05/01/2024

**REPLY PERTAINING TO OPERATIONS DEPARTMENT TO RTI QUERY NO.AAICH/R/E/23/00225 DT.
08/12/2023 RECEIVED FROM SHRI. VINEESH K**

S. No	Query	Reply
1	As per circular no AAI/SR/2-1(8)/OPS/EA/R&P/2023 dated 24/07/23 ,there is no physical standard for supdt(ops),what would be their nature of duty ?	<p>1) The following duties and responsibilities performed in Airside Operations:</p> <ul style="list-style-type: none">• Prevent Un-authorized persons & vehicles from entering movement area.• Ensure vehicles & ground support equipment area parked in the designated areas.• Keep constant vigil on the airport to detect and scare away the bird concentration and stray animals.• Ensure constant vigil on the airfield and inform incident & accident to Duty officer and Fire service.• Ensure proper mooring of aircraft.• Runway inspection.• Carrying out Perimeter fencing check.• Provide "Follow Me" service in guiding the arriving & departing aircraft• Deploy & monitor the performance of equipment's and bush cutters.• Any other job assigned by Duty Apron Manager. <p>2) The following duties and responsibilities performed in Terminal Management:</p> <ul style="list-style-type: none">• To ensure proper cleaning of Toilets and other areas of Terminal Building.• To extend all Courtesy as per the requirements of VIP projected by the Protocol Staff as per advice of Terminal Manager.• Keep constant co-ordination with Terminal Manager for smooth operation of Terminal.• To maintain all records of Lost & Found items.• To keep continuous Check/Inspection of the VIP Lounges for its preparedness and Up-keep for suitability and in case of shortcoming inform Terminal Manager.• To maintain all records of day to day activities.• To keep monitoring of all Pax. Facilities at Terminal during shift and in case of shortcoming inform the Terminal Manager.• Carry other tasks as may be directed by Terminal Manager in the shift.• To assist Terminal Manager for "May I Help You!" to achieve Customer Satisfaction.


05/10/24

आर. लक्ष्मणन / R. LAKSHMANAN
संयुक्त महाप्रबंधक (प्रचालन) / Joint General Manager (Operations)
भारतीय विमानन संस्थान / Airports Authority of India
बे.मु. द.वे., प्रचालन कार्यालय बॉम्बे/ RHO, SR, Operational Offices Complex
चेन्नई हवाई अड्डा, चेन्नई - 600 016 / Chennai Airport, Chennai-600016



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नै / Southern Region : Chennai – 600 027
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
Department of Human Resources Management



AAI/SR/M/RTI/EH/R&P

Date: 22.12.2023

OFFICE NOTE

SUB: Information sought under RTI Act, 2005 –reg.

Reference is made to the RTI application No.AAICH/R/E/23/00225 dated 08.12.2023 in respect of Shri.Vineesh K, Kerala seeking the information with respect to the information sought under RTI Act, 2005.

The requisite information is furnished below:

Sl. No.	Information sought	Reply
1	As per circular no AAI/SR/2-1(8)/OPS/EA/R&P/2023 dated 24.07.2023, there is no physical standard for supdt(ops), what would be their nature of duty?	No recorded information available with HR. The custodian for the said information is Operations Department, RHQ-SR.
2	What is the reason for excluding the physical standards for supdt.(ops) lateral entry?, which was an eligibility criteria for the selection of Sr. Asst (ops) in all previous recruitment.	Interrogative queries demanding explanation and decision do not come under the scope of Section 2(f) of the RTI Act.
3	Is there any amendment made for physical standard in AAI R&P rules for recruitment for non-executives in operational cadres?	Copy of CHQ letter dated 22.11.2022 is enclosed. Also, Please visit at the website https://www.aai.aero/sites/default/files/rtdir/Gazette-Notification-AAI-R%26P-2020-FULL.pdf for R&P Guidelines, 2020
4	If such amendments are done, is it gazette? Please provide a copy of the same.	CHQ is the custodian for the information
5	Please provide a copy of minutes of meeting conducted for said R&P amendment.	
6	Sr. Supdt., those who would be selected vide letter circular No.AAI/SR/2-1(8)/OPS/EA/R&P/2023 dated 24/07/23 will be posted as Supdt(ops) or Sr.Supdt(ops)?	Refer Notification dated 24.07.2023
7	As per circular no AAI/SR/2-1(8)/OPS/EA/R&P/2023, if they are absorbed in Operations dept after two years, where would be their seniority fixed?	A PIO is not expected to provide intangible such as interpretations, opinions, advices, explanations, reasons as they cannot be said to be included in the definition of information in Section 2(f) of the RTI Act.

(C.THAMBITHURAI)
Jt. General Manager (HR)
AAI, RHQ-SR

(Through GM(HR)/SR)

To
The General Manager (CNS-SR), PIO, AAI-SR, Chennai

दूरभाष – 044-22567000 / 22567453 / 22567463 / 22567479
भाष सह फैक्स – 044- 22561515 / TELEFAX : 22561466



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

No, A-600012/38/2020-ES-IV

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Dated: 22.11.2022

To

The Regional Executive Director
Airports Authority of India
Western Region
Mumbai

Subject: **Recruitment for various posts in non-executive cadre through DR & DE-clarification for Ops. cadre**

Please refer to RHQ WR letter No. AAI/RHQ/WR/HR/Rectt. Cell/DE/2022 dated 22.07.2022 and this office letter of even number dated 03.08.2022 on the subject noted above.

2. It is informed that the matter has been re-examined and the point no. 2 of the CHQ letter dated 03.08.2022 is clarified as under: -

"that the vacant posts of Sr. Asstt.(Ops) through DR may be filled up as per the provision of R & P Regulations, 2020 only".

3. The earlier clarification issued on the abovesaid point vide letter dated 03.08.2022 may be treated as *null and void*.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully

[GIRISH KUMAR] 22/11/22

JT. GENERAL MANAGER (HR)

Copy to:

- RED NER -for similar action with respect to their letter No. AAI/NER/HR/RECTT/2022/R-105/4702 dated 11.09.2022 please.
- RED NR/SR/ER-for similar action please

Copy to information: -

- PS to ED(HR)/ED(Ops)